

वृद्ध विश्राम गृह

(मीनू)

- नाश्ता सुबह 8 बजे - दलिया/पोहा, बिस्कुट, ब्रैड, फल, दूध, चाय
- दोपहर का भोजन 1-2 बजे - दाल/राजमा/छोले/कढ़ी-पकौड़ा, सीजनल सब्जी, चपाती, चावल, दही, लस्सी व सलाद
- सांय काल चाय 4 बजे - चाय, बिस्कुट
- रात्रि का भोजन 7-8 बजे - दलिया/खिचड़ी/चावल, दाल, सब्जी, चपाती व दूध आदि

सप्ताह में दो दिन दोपहर भोजन के साथ खीर, हलवा, मिठाई आदि


President.
ECO CLUB
Siwani Mandi (Bhiwani)